

(ग) यदि हाँ, तो वैराफिन नाम के मामलों में देश अब तक अतिनीचर ही जायेगा; और

(घ) देश में अतिनीचर मूल्य के कारण वैराफिन नाम की आयात कमी जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान वैराफिन के उत्पादन का उत्पादन 48,500 मी० टन और खपत 66,000 मी० टन तक होने का अनुमान है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) बढ़ हुई माँग को पूरा करने के लिए कुछ उपायों में से का उपयोग का उत्पादन का बढ़ाया जा सकता है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान आयात किये जाने वाले वैराफिन के कारण विनिर्दिष्ट है :-

वर्ष	मात्रा मी० टन	मूल्य ए० ए० ए० अमरीकी डालर
1987-88	20,000	1,33,00,000.00

Retirement age of Judges

"300. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state;

(a) whether there is any proposal to raise the retirement age of Judges Of High Courts; and

(b) if so, by how many years and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF PLANNING, THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION AND THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE

(SHRI P. SHIV SHANKER): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भाखड़ा बांध में पानी का स्तर

@2468. श्री रशोद मसूद : क्या ऊर्जा मंत्र यह बताते का आपातकाल है ?

(क) क्या यह सच है कि पूर्ववर्ती वर्षों के तुलना में जुलाई, 1987 के महने में भाखड़ा बांध का जल-स्तर कम हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पानी का स्तर कम हो जाने के कारण उत्तरी क्षेत्र के अनेक राज्य प्रभावित होते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने संबंधित राज्यों को इस परिणाम प्रभाव से अवगत कराने के लिये कमा प्रयास किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशोला रोहतगी) : (क) जी, हाँ।

(ख) इसका मुख्य कारण सतलुज नदी के अपवाह क्षेत्र में वर्षा का कमा के कारण भाखड़ा जलाशय में अतर्बाह कम होना है।

(ग) यदि वर्तमान प्रवृत्ति बना रहेगी तो जलाशय का जल स्तर नाचा रहने से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में बिचाई के साथ-साथ विद्युत के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा।

(घ) भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड ने बोर्ड को तकनीक समिति को बैठकों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को स्थिति से अवगत करा दिया है।

@पूर्वतः अतारंकित प्रश्न 1484 जिसे 7 जुलाई, 1987 से स्थानांतरित किया गया।